

CLASS - 5
SUBJECT - 2nd Language Hindi
CHAPTER - 10

सच्ची लगन व ईमानदारी

Worksheet

सार

- अमेरिका के भूतपूर्व राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन गरीबी में पले बड़े और उन्होंने अनेक कठिनाइयों को सहा, परंतु अपनी लगन, हिम्मत व साहस के बल पर एक दिन इतने बड़े राष्ट्र के राष्ट्रपति का पद संभाला। आइए आज हम प्रस्तुत पाठ के माध्यम से उनके जीवन के कुछ प्रसंग को जानेंगे।
- एक दिन समाचार-पत्र के थोक व्यापारी के पास एक बालक ने आकर विनती की कि उसे समाचार-पत्र बेचने के लिए रख ले।
- व्यापारी ने कहा कि वे उसी को अखबार बेचने के लिए रखते हैं जो जमानत के रूप में कुछ जमा करवाता है। बच्चे ने कहा वह अपनी सिर्फ ईमानदारी जमा करवा सकता है।
- व्यापारी उसकी विश्वास-भरी आवाज़ और ईमानदारी से प्रभावित होकर दस समाचार-पत्र बेचने के लिए उसे दे दिए।
- इस बालक का नाम अब्राहम था। वह अमेरिका का राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन था। जिसे अमेरिका-वासी राष्ट्रपिता कह कर याद करते हैं।
- अब्राहम का जन्म अमेरिका के एक गांव में हुआ था। उसका परिवार गरीब था। वर्षा ऋतु में टूटी छत से पानी टपकता था। परिवार में प्रायः खाने पीने की चीजों की कमी रहती थी।
- अब्राहम लिंकन को बचपन में महापुरुषों की जीवनी पढ़ने का बहुत शौक था। गरीबी के कारण वे पुस्तकें खरीद नहीं सकते थे इसलिए किसी से मांग कर लाते, पढ़ते, लौटाते और अपनी जिज्ञासाओं का समाधान करते थे।
- एक बार वे दस मील चलकर एक पुस्तक मांग कर लाए। वर्षा में छत टपकने के कारण पुस्तक भीग गई। पुस्तक के मालिक ने उसे उनके यहां तब तक मजदूरी करने के लिए कहा जब तक पुस्तक की कीमत जितना पैसा चुक न जाए।
- दिन भर मजदूरी करने के बाद वह रात को सड़क की रोशनी में पढ़ता था। एक प्रतिष्ठित व्यक्ति ने उसकी लगन से प्रभावित होकर उसे बहुत-सी पुस्तकें पढ़ने के लिए दी।
- अपनी ईमानदारी, मेहनत, साहस, विश्वास तथा सेवा भावना के कारण अब्राहम लिंकन एक दिन अपने देश का राष्ट्रपति चुना गया। अमेरिका के विकास के लिए जो कार्य उन्होंने किए उसके लिए उनका नाम आज भी बड़े आदर के साथ लिया जाता है।

1) निम्नलिखित शब्दों के अर्थ लिखें-

- a) स्वयं
- b) जमानत

- c) प्रतिष्ठित
- d) विनती
- e) उत्थान
- f) समाधान

2) निम्नलिखित शब्दों से वाक्य बनाएं-

- a) विश्वास
- b) समाचार-पत्र
- c) समाधान
- d) सुरक्षित
- e) विनती
- f) उत्थान

3) निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में दें -

- a) व्यापारी किस चीज का थोक व्यापार करता था?
- b) व्यापारी को बालक ने जमानत के तौर पर क्या दिया?
- c) उस बालक का नाम क्या था?
- d) अब्राहम का जन्म कहां हुआ था?
- e) अब्राहम लिंकन को बचपन में क्या पढ़ने का शौक था?
- f) किस व्यक्ति ने उसे सड़क पर पढ़ते हुए देखा?

Exercises from the back of the lesson -

Pg no. - 60

Q2 - सोचें और बताएं

Q3 - लघु उत्तर लिखें

(Do all the questions in your exercise copy)

Pg no. - 61

Q4

भाषा मंथन -

Q1, Q3,

Pg no. - 63

कुछ करने के लिए

सुलेख

(Do all questions in your text book)

